

ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय- हिंदी

कक्षा- आठ

Assignment जून -2021-22

प्रश्न 1. निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें ।

बेहतर शिक्षा सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। यह आत्मविश्वास विकसित करती है और एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करती है। स्कूली शिक्षा सभी के जीवन में महान भूमिका निभाती है। पूरे शिक्षा तंत्र को तीन भागों में बाँटा गया है जैसे; प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा। शिक्षा के सभी भाग अपना एक विशेष महत्व और लाभ रखते हैं। प्राथमिक शिक्षा विद्यार्थियों को आधार प्रदान करती है जो जीवनभर मदद करती है, माध्यमिक शिक्षा आगे की पढ़ाई का रास्ता है और उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरे जीवन में, भविष्य में आगे बढ़ने का रास्ता है। हमारी अच्छी और बुरी शिक्षा यह निर्धारित करती है कि हम भविष्य में किस प्रकार के व्यक्ति बनेंगे।

(क) शिक्षा से किस प्रकार व्यक्तित्व का विकास होता है ?

(ख) शिक्षा तंत्र किस प्रकार विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है ?

(ग) 'निर्माण' तथा 'व्यक्तित्व' शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। (वाक्य गद्यांश में से नहीं होने चाहिए।)

प्रश्न-2 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

क) दीवाने अन्य लोगों से किस प्रकार भिन्न होते हैं ?

ख) लोग दीवानों के जाने से दुःखी क्यों हो जाते हैं ?

ग) आज भी पत्र संचार का सबसे भरोसेमंद साधन कैसे हैं?

प्रश्न-3 निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1) निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया का भेद लिखिए -

1. बच्चा चादर बिछा रहा है।

2. पुजारी भक्तों को प्रसाद बाँटता है।

2) निम्नलिखित वाक्यों में प्रयोग के आधार पर क्रिया का भेद लिखिए -

1. राम पढ़कर सो गया।

2. महिला ने नौकरानी से कपड़े धुलवाए।

प्रश्न-4 'पर्यावरण संरक्षण' पर 20-30 शब्दों में नारा लिखिए ।

प्रश्न-5 कुर्सी तथा मेज़ के बीच हुए संवाद को 50-60 शब्दों में लिखिए ।

प्रश्न-6 अपने मित्र को परीक्षा में पास होने पर 30-40 शब्दों में बधाई सन्देश लिखिए ।

प्रश्न-7 नए अध्यापक की विशेषताओं को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें ।